

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक, की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-खरगोन

अ.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पद एवं कार्यालय का नाम (3)
1.	श्री संजीव दुबे	जिला आबकारी अधिकारी
2.	श्री जगदीश राठी	जिला आबकारी अधिकारी, अग्रवाल ब्रेवरीज, बड़वाह
3.	श्री सी. एम. निनामा	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, महेश्वर
4.	श्री महेन्द्र सिंह रावत	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कसरावद/भीकनगांव
5.	श्री अजीज खॉन	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, खरगोन
6.	श्री रमेशचन्द्र अहिरवार	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, एसो. खोड़ी बड़वाह
7.	श्री कृपाशंकर रस्तोगी	सहायक जिला आबकारी अधिकारी
8.	श्री डॉ. एल. सूर्यवंशी	श्रम पदाधिकारी, खरगोन
9.	डॉ. एम. एस. खतेड़िया	खनिज अधिकारी, खरगोन
10.	श्री राजेन्द्र वायकर	जिला आपूर्ति अधिकारी, खरगोन
11.	श्री अजीत कुमार कुजुर	सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी, खरगोन
12.	श्री राहुल बेजामिन	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, खरगोन
13.	श्री एम. अजनार	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, भीकनगांव
14.	श्री के. पी. भालसे	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, बड़वाह
15.	डॉ. श्रीमती ममता खेड़े	अधीक्षक, भू-अभिलेख
16.	श्री यशवंतसिंह चौहान	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
17.	श्री एम. एल. हरित	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, बड़वाह